

कानपुर में पकड़ी गई एशियन पेंट की नकली फैक्ट्री: 300 खाली डिब्बे बरामद, नकली पेंट भरकर करते थे सप्लाई; फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार



बिधनू थाना के न्यूआजाद नगर चौकी क्षेत्र में बीते कई वर्षों से नकली एशियन पेंट फैक्ट्री संचालित हो रही थी। शुक्रवार रात बिधनू पुलिस ने एशियन पेंट की फ्लाइंग टीम के साथ फैक्ट्री में छापा मारा है। पुलिस ने यहां से एशियन पेंट के लगभग तीन सौ खाली डिब्बे बरामद किए। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने छापा मारकर पकड़ी नकली पेंट फैक्ट्री

बिधनू थाना पुलिस को शुक्रवार रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि एशियन पेंट के प्रतिनिधि राजेश कुमार चौरसिया ने उन्हें थाना क्षेत्र में एशियन पेंट की नकली फैक्ट्री संचालित होने की जानकारी दी। जिस पर एशियन टीम की फ्लाइंग टीम के साथ बिधनू पुलिस ने देर रात फैक्ट्री में छापा मारा।

पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया

इस दौरान पुलिस को यहां पर केमिकल से पेंट तैयार करने की फैक्ट्री चलती हुई मिली। यहां पर एशियन पेंट के खाली डिब्बों में नकली पेंट भरकर क्षेत्र के बाजारों में बेचा जा रहा था। इस दौरान यहां पर फैक्ट्री संचालक ऋषभ बाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फैक्ट्री संचालक से पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने जल्द खुलासे की बात कही

मामले में बिधनू थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि यहां से केमिकल मिक्सिंग मशीन, स्टीकर, कच्चा माल समेत करीब तीन सौ खाली डिब्बे बरामद हुए हैं। जिन्हें कब्जे में लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/kanpur/ghatampur/news/300-empty-cans-recovered-used-to-supply-fake-paint-factory-operator-arrested-130689289.html>